

Date: 02nd August, 2021

1) Asst. President, Listing Department, National Stock Exchange of India Limited, Exchange Plaza, C-1, Block-G, Bandra Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai-400051	2) The Listing Department, Corporate Relationship Department, BSE Limited, 1 st Floor, New Trading Wing, P.J. Towers, Dalal Street Fort, Mumbai-400001
Scrip ID – ARCHIES	Scrip Code – 532212

Subject: Submission of Newspaper Advertisement of Notice to Shareholders for transfer of shares to the Investors Education and Protection Fund (IEPF) Account

Dear Sir/ Madam,

Pursuant to the applicable Regulations of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and as per Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, we hereby submitting the newspaper advertisement of Notice to shareholders for transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund Account.

Please take the above on records.

Thanking You.

Yours faithfully,

For Archies Limited



Hitesh Kumar

(Company Secretary)

ARCHIES LIMITED

C-113, NARAINA INDUSTRIAL AREA, PHASE-1, NEW DELHI-110028 (INDIA), CIN : L36999HR1990PLC041175
TEL.: 91-11-41410000, 41412222, Fax : 91-11-41410060, Email : archies@archiesonline.com, Website : www.archiesonline.com
REGISTERED OFFICE : PLOT NO. 191-F, SECTOR- 4, I.M.T. MANESAR, GURUGRAM - 122050, HARYANA (INDIA)



'FY22 will see tech IPOs lead primary markets'

Swaraj Singh Chahal
swsaj.singh@liveint.com
MUMBAI

The stellar listing of Zomato Ltd has created a strong buzz around tech initial public offerings (IPOs). In conversation with Mint, S. Ramesh, managing director and chief executive officer of Kotak Mahindra Capital Co., and Sourav Malik, the company's joint managing director, talk about the outlook for primary markets in fiscal year 2021-22 (FY22), and why tech IPOs will lead the activity this year. Edited excerpts:

Has the successful Zomato IPO made an Indian IPO the de-facto option for most local tech companies?
Ramesh: From our (Kotak Mahindra Capital Co.) point of view, we never had any concern as many of these businesses are Indian businesses and there is no better place to list than in India. We were confident that they would get excellent valuations and response. The business case was there for them to list in India. Also, we recognized that a small number of such companies may have a business presence outside and have further plans to build a global business. Such companies may end up listing outside India. Having said that, most of the new-age tech companies are likely to get listed in India. Global and local investors seem to have a good appetite to invest in such companies. **Malik:** If you look back to the listing of Maruti Suzuki in the Indian market in June 2003 and the kind of visibility a consumer-oriented company such as Maruti got from getting listed, it makes perfect commercial sense for new-age companies to get listed in India. **Ramesh:** Last year \$2.17 trillion was raised from the primary market, led by qualified institutional placements (QIPs) and IPOs. FY22 all probability will see a larger fundraising from the primary market, led by the tech IPOs. **What role has market regulator Securities and Exchange Board of India (SEBI) played in extending the path to IPO for these tech companies?**
Ramesh: SEBI as a regulator has been progressive and supportive for the listing



S. Ramesh (left), managing director and chief executive officer of Kotak Mahindra Capital Co., and Sourav Malik, the firm's joint managing director.

of these new-age tech companies in the country. Earlier there was speculation that these tech companies may get exported to the global markets for listing. The Zomato listing and a pipeline of other tech companies have put such speculation to rest. All of this would not have been possible without the proactive support of SEBI.

Kotak has bagged many of the high-profile tech IPO mandates. Is this a strategic direction for the firm to focus more on tech deals in not just capital markets, but also in the private fundraising market?
Ramesh: Last year, we expanded our team and started a more focused digital practice. Coincidentally, we also had a strong pipeline of private placement and merger and acquisition (M&A) transactions. Over time, we have put in effort towards understanding these new-age companies and also the investors' appetite for such companies. With tech companies getting greater

INTERVIEW

Most of the new-age tech firms are likely to get listed in India. Investors seem to have a good appetite to invest in such companies.

Omni channel-focused acquisitions by leading startups. What is your view on this?
Malik: We think this is a dominant trend that is heretofore. Most companies have come to the conclusion that India will have to be tackled on multiple fronts and distribution is not going to be either one or the other but is going to be a combination. Whether it is the tech company acquiring the offline company, or the offline company acquiring the tech company, it does not matter who acquires whom. The point is that these synergies exist.

A record 99.37% students clear CBSE class 12; all eyes on university cut-offs

Prashant K. Narula
prashant.n@liveint.com
NEW DELHI

Students are bracing for a year of stiff competition and astronomical cut-offs for college admission, following their class 12 board examination where marks have gone up steeply.

The number of students who scored 95% and above jumped 8% from a year ago, and were almost four times that of 2019. Central Board of Secondary Education's class 12 board exam data showed.

Two years ago, 17,693 students scored 95% or above, or less than 1% of all candidates. A year ago, when the exams were also disrupted by the first wave of the coronavirus pandemic, that figure more than doubled to 38,086. And in 2021, the number has touched 70,004, or 5.37%. Overall, 12,06,318 CBSE students passed class 12 exams, a success rate of 99.37%. The success rate for girls was 99.67%, or 0.54% more than boys. The number of high scorers has soared despite CBSE asking schools to moderate marks significantly and not inflate scores, with a special reference to the 95%-and-above category. The central board said that almost all schools adopted and adhered to the assessment policy of CBSE and appreciated the efforts made by schools in preparing the results in time. The number of students who



The number of students who scored 95% and above jumped 8% from a year ago.

scored above 90% but below 95% fell slightly from almost 100,000 last year to 60,574 in 2021. This number was about 94,000 in 2019. Rising scores will have a direct bearing on college admissions, leading to high cut-offs in top universities like Delhi University. While the overall 99.37% success rate was recorded across school categories, the Kendriya Vidyalaya and Central Tibetan Schools secured a 100% success rate. It was followed by Jawahar Noida Vidyalyaya (JNVs) with a success rate of 99.94%, and government schools with 99.72%. Government-aided schools showed a success of 99.48% and private schools recorded a pass percentage of 99.22%.

The examination results were announced based on a 30:30:40 model after exams were cancelled while the performance of a student in Class 10 and 11 was awarded 30% weight each, the Class 12 performance got 40% weightage. CBSE said no merit list will be prepared for class 12 students of the 2021 result year. Prime Minister Narendra Modi, while appreciating efforts of the students, said: "The batch which appears for the Class XII Boards this year did so under unprecedented circumstances. The education world witnessed many changes through the year gone by. Yet, they adapted to the new normal and gave their best."

Marico's June qtr profit falls 6% to ₹365 cr

Surekha Tandon
surekha.t@liveint.com
NEW DELHI

Marico Ltd on Friday reported a 6% decline in net profit from a year earlier in the June quarter (Q1FY22) of ₹365 crore, but by 20% over the last two quarters. The profit figure, however, beat street estimates.

Consolidated revenue from operations for the three-month period ended June rose 3% to ₹2,535 crore; the company said in regulatory filing. A total of 15 analysts had esti-

imated Marico's net profit at ₹362.6 crore on consolidated revenue of ₹2,501.30 crore. Domestic sales volumes grew 2% in the June quarter, albeit on a soft base of the year-earlier period when volumes had fallen 14%. The company said input costs remained high in the last two quarters and pricing actions partially alleviated inflationary pressure, impacting gross margins.

"Gross margin was down 729 bps year-on-year (y-o-y) given the stark contrast in the cost of inputs consumed in the two quarters, as pricing interventions in the core portfolios could only partially alleviate the inflationary pressure," the company said. However, operating leverage benefited the last two quarters and pricing actions partially alleviated inflationary pressure, impacting gross margins. Ebitda (earnings before inter-

New medical entrance NExT to be held in first half of 2023: Centre

Neetu Chandra Sharma
neetu.singh@liveint.com
NEW DELHI

The National Exit Test (NExT) will be conducted in the first half of 2023, Union minister of health and family welfare Mansukh Mandaviya said on Friday after chairing a review meeting of the National Medical Commission (NMC). To ensure smooth running of the examination, a mock run will be conducted in 2022, he added. The results of NExT, both steps 1 and 2, will be used for the qualifying final MBBS exam, to get a licence for practising medicine in India, as well as for merit-based allocation of postgraduate seats in broad specialties. The exam will be the same for all, including those trained in India and outside. This will address the problem of foreign medical graduates getting mutual recognition, the ministry said. "The government is committed to create quality medical education and transparent examination infrastructure and health services. It is resolutely

working with all stakeholders to achieve this objective," Mandaviya added. The NMC was established through the National Medical Commission Act, 2019, which came into force on 25 September 2020. The objective is to improve access to quality and affordable medical education, ensuring adequate and high-quality medical professionals in India, and to provide equitable and universal healthcare. NMC is responsible for laying down policies to ensure high standards in medical education, and making necessary rules to regulate medical institutions, research and medical professionals, besides assessing health care needs, including human resources and infrastructure, and developing a road map to meet the standards. It also oversees functions related to promoting, coordinating and framing of policies for proper functioning of the commission, the autonomous boards and state medical councils. NMC also acts as the appellate jurisdiction with respect to decisions of autonomous boards.

Indian Oil-Petronas JV looks to launch new auto fuel brand

Staff Writer
feedback@liveint.com
NEW DELHI

Indian Oil Petronas Pvt. Ltd, the joint venture between Indian Oil Corp. Ltd (IOCL) and Malaysia's state-run oil and gas firm, Petrolim Nasional Bhd (Petronas) is planning to launch a separate brand for retailing auto fuels in India, IOCL chairman Shrikant Madhav Vaidya said on Friday. "Currently, the business is limited to LPG (liquefied petroleum gas). We have now extended our cooperation to retailing petrol and diesel, as well as natural gas," said Vaidya while adding that the new venture will not impact IOCL's existing market share. According to rating agency Icerat Ltd, India's petrol and diesel consumption is expected to rise 14% and 10%, respectively, in FY22. In India, the world's third-largest oil importer, fuel prices have been rising steadily over the last few months with diesel and petrol retailing above the 100 mark in several parts of the country. On Friday, IOCL announced a net profit of ₹5.94 crore for the June quarter, up from ₹1.91 crore



India's petrol consumption is likely to rise 14% in FY22.

a year-ago. India's largest fuel retailer posted a jump in revenue in the first quarter to ₹155,056 crore, as compared to ₹158,939 crore in the same quarter of last year due to higher inventory gains and improved petrochemical margins. "Indian Oil sold 20.325 million tonnes (mt) of products, including exports, during the first quarter of 2021-22. Our refining throughput for Q1 2021-22 was 16.70 million tonnes and the throughput of the corporation's countrywide pipelines network is 10.875 million tonnes during the same period. The gross refining margin (GRM) during the first quarter of 2021-22 is ₹6.58 per barrel as compared to ₹9.85/bbl in

corresponding quarter of previous financial year. Core GRM for current period after collecting inventory loss or gain stood at ₹2.44/bbl," Vaidya was quoted in company statement. IOCL, which is also India's largest refiner with 32% share of the domestic market, plans to add another 25 mt to its current capacity of 80.2 mt. India is a key refining hub in Asia, with an installed capacity of over 249.36 million tonnes per annum. It has 23 refineries and plans to grow its capacity to 400 mt by 2025. "Petrol demand has crossed pre-pandemic levels; we are currently nearly 3 to 5% more than pre-covid levels. Diesel demand is around 88-90% and I expect to get it back to pre-covid levels by Diwali. We may have to wait till the end of the current financial year to get an auto fuel brand to come back to its normal," Vaidya said. IOCL is planning to build India's first green hydrogen plant in Mathura. The central government is considering making it mandatory for fertilizer plants and oil refineries to purchase green hydrogen as part of its plan to cut India's dependence on fossil fuels.

Archies

The most special way to say you care

ARCHIES LIMITED

Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050.
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: www.archiesonline.com
Email: archies@archiesonline.com, Tel: +91 124 4966666.

NOTICE TO SHAREHOLDERS

For transfer of shares to the Investor Education and Protection Fund (IETF), Account (As per Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 and Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016)

NOTICE is hereby given to the Shareholders of Archies Limited ("Company") that in compliance with the provisions of Investor Education and Protection Fund (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules ("Rules"), 2016 and provisions of the Companies Act, 2013, the Company is required to transfer all the unclaimed / unpaid shares in respect of which dividends remain unpaid or unclaimed for seven consecutive years to the Investor Education and Protection Fund (IETF) Account established by the Central Government.

Hence, all the underlying shares in respect of which dividends are not paid/claimed for the last 7 (seven) years for the year 2013-2014, have to be transferred to IETF pursuant to the said Rules. A list of such Shareholders, who have not encashed their dividends for seven consecutive years and whose shares are therefore liable for transfer to the IETF Account, is displayed on the website of the Company: https://www.archiesonline.com/public/htdocs/Statement_of_unclaimed_dividend_amount_2013-14_to_presentive_for_7_years_unpaid_shares_are_to_be_transferred_to_IETF_Suspend_Account_2021.pdf

The Company has sent individual communication to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IETF Account as per the said Rules for taking appropriate action and submitting requisite documents to claim the shares and unclaimed dividends before its credit to IETF Account. Shareholders are requested to forward the requisite documents as per the communications to the Company's Registrar and Share Transfer, to claim the Shares and unclaimed dividend amount(s). Notice is hereby given that in the absence of receipt of a valid claim by the Shareholder(s), the Company would be transferring the said shares and dividend amount(s) to the IETF Account without further notice in accordance with the requirements of the said Rules. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IETF Account pursuant to the said Rules. Please note that, upon such transfer, shareholders can claim the transferred shares along with dividends from IETF, for which details are available at www.ief.gov.in

For any information / clarifications on this matter, the concerned shareholders may contact the Company's Registrar and Share Transfer Agent - M/s. Swapnil Kumar Naskar - Mr. Link Indira India Private Limited, Noble Heights, 1st floor, Plot No. 2, C-1 Block, LSC, Near Savitri Market, Janakpuri, New Delhi - 110058. Email: swapnil@linkindia.com or delhi@linkindia.com. Ph. 011-49411000

By order of the Board
For Archies Limited
Hitesh Kumar
Company Secretary

Offline exams are back ahead of opening of varsities

Prashant K. Narula
prashant.n@liveint.com
NEW DELHI

A group of 14 central universities will hold offline entrance exams in September, while some central schools will conduct physical entrance tests shortly, in a clear indication of physical exams being back for schools, colleges and universities. Physical exams will be held after the schools and universities get a go-ahead from the Union education ministry. Several other entrance tests

such as those for Jawaharlar Nehru University (JNU), the Indian Council of Agricultural Research and agriculture varities are also slated for September. These entrance exams may be the precursor to the reopening of colleges and varsities, which have been closed for more than 17 months. "We have approached the national testing agency (NTA), which functions under

the education ministry, and it has agreed to do face-to-face exams, which will be computer-based in external centres in September. Details are being worked out," said R.P. Tiwari, vice-chancellor of Central University of Punjab. "This will benefit a consortium of 14 central universities that are relatively new. The welfare of students is in our mind while deciding this. The covid-19 situation is improving and we

hope to see a much better environment in September," Tiwari said. "The Central Universities Common Entrance Test is happening this year for 40-old central varsities, but 14 are going ahead with a national-level entrance examination. At the higher education ministry, as a principle, allowing schools and holding reliable assessments harms students and the institution," said an administrator in another central university. The ministry is, as a principle, allowing schools and institutions under its jurisdiction to hold the exam, said a

ministry official requesting anonymity. "However, while doing so, they have to adhere to covid-19 safety protocols keeping in mind the health of students and staff conducting the exams," the official said. Universities and institutions are free to approach the NTA for any help in information delivery, the official said. Delhi University is conducting the postgraduate entrance examination via the NTA, while Jawaharlal Nehru University (JNU) is holding it via the NTA in September. These will be computer-based tests.

Place: New Delhi
Date: 30.07.2021

Delhi Jal Board: Govt. of NCT of Delhi
Office of the Executive Engineer (Civil)-SDW-NW
Opp RBI colony Shalimar Bagh, New Delhi-110088
Ph. No. 2712491427, E-mail: ee@delhi.nctdelhi.gov.in

"STOP CORONA, Wear Mask, Follow Physical Distancing and Maintain Hand Hygiene"

PRSS/ML/NO.17(27)
REGISTRATION NO.

Sl. No.	Name of Work	Amount paid to leader (in Rs.)	Date of release or leader in e-procurement solution	Last date/time of receipt of e-procurement solution
1.	Construction of additional 7.8 lakh litre capacity GRI-II Water Kiosk (Municipal) complex. Tender ID: 2021-DJ-206387-1	48,82,447/-	24.07.2021	21.08.2021 Up to 09.09.24

Further details of the project can be seen at <https://eprocurement.delhi.nctdelhi.gov.in>

ISSUED BY P.A.D. (WATER)
(And Kumar Sharma)
Distt. No. J.S.W. 221 (2021-22)
Executive Engineer (Civil)-SDW-NW

केंटर की रिपोर्ट, सौंदर्य और स्वास्थ्य उत्पादों पर जमकर खर्च कर रहे गांव के लोग

ग्रामीण इलाकों में ब्रांड की मांग शहरों से ज्यादा

रुपय

11.6 फीरोदी तेजी से बढ़ी

ग्रामीण बाजार का बदलता रूढ़ान इलाकों के इस्तेमाल होने वाले उत्पाद (एयरसिटी) बजट के भीतर ब्रांडों के लिए उच्चतर की डिमांड कोकरोट आया है।

ग्रामीण इलाकों में स्थानीय की बजाय ब्रांड को लोग उच्चतर देख रहे हैं। इस मामले में उन्होंने शहरी उपभोक्ताओं की चोखे छोड़ दिया है।

ग्रामीण बाजार शहरों से अलग प्रकृतिक रूप से है। केंद्र की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कोकरोट ब्रांड के लिए ग्रामीण इलाकों में ब्रांडिंग और सौंदर्य उत्पादों की डिमांड उच्चतर बढ़ा है। वहीं शहरी उपभोक्ताओं में यह से कम काम की है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक कोकरोट ब्रांड के लिए ग्रामीण बाजार में 1.58 अरब डॉलर की मांग बढ़ी है।



11.6 फीरोदी तेजी से बढ़ी है। जबकि शहरों के मामले में यह 10.2 फीरोदी रही है। वहीं गांव के लिए ग्रामीण इलाकों में ब्रांडिंग और सौंदर्य उत्पादों की डिमांड उच्चतर बढ़ा है। वहीं शहरी उपभोक्ताओं में यह से कम काम की है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक कोकरोट ब्रांड के लिए ग्रामीण बाजार में 1.58 अरब डॉलर की मांग बढ़ी है।

10.2 फीरोदी तेजी से बढ़ी

3.3 फीरोदी बढ़ी है शहरों में गांव के लिए ग्रामीण बाजार में 1.58 अरब डॉलर की मांग बढ़ी है।

इन उत्पादों की मांग

ग्रामीण बाजार में इन उत्पादों की मांग बढ़ी है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक कोकरोट ब्रांड के लिए ग्रामीण बाजार में 1.58 अरब डॉलर की मांग बढ़ी है।

गांव में और तेजी आगामी वर्ष के लिए भी बढ़ती है। केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक कोकरोट ब्रांड के लिए ग्रामीण बाजार में 1.58 अरब डॉलर की मांग बढ़ी है।

बुनियादी उद्योगों की जून में वृद्धि 8.9% रही

जून में वृद्धि 8.9% रही

देश में आज बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर इस साल जून में 8.9 प्रतिशत रही। मुख्य रूप से कच्चे तेल, इस्पात, कोयला तथा विद्युत उत्पादन बढ़ने से बुनियादी उद्योगों में अच्छी वृद्धि दर्ज की गई।

आज बुनियादी उद्योगों-कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, इस्पात, सोफ्ट और बिजली में वृद्धि दर्ज की गई। इन उद्योगों की वृद्धि दर 12.4 प्रतिशत की गिनाई गई है। इसका कारण कोयला-19 प्रतिशत की वृद्धि, प्राकृतिक गैस-19 प्रतिशत की वृद्धि, सोफ्ट और बिजली-19 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

इस साल में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 16.3 प्रतिशत की गिनाई गई है। इस साल में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 16.3 प्रतिशत की गिनाई गई है। इस साल में बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर 16.3 प्रतिशत की गिनाई गई है।



राजकोषीय घाटा वार्षिक अंशजमा 18.2 प्रतिशत

इस साल में राजकोषीय घाटा वार्षिक अंशजमा 18.2 प्रतिशत की गिनाई गई है। इस साल में राजकोषीय घाटा वार्षिक अंशजमा 18.2 प्रतिशत की गिनाई गई है।

बिजनेस आपक

जून में गैर-खाद्य बैंक ऋण 5.9 प्रतिशत बढ़ा

देश में गैर-खाद्य बैंक ऋण की वृद्धि जून 2021 में 5.9 प्रतिशत पर बढ़ी है। इस साल जून में गैर-खाद्य बैंक ऋण की वृद्धि दर 5.9 प्रतिशत रही।

देवनागि इंटरनेशनल का आईपीओ आया

देवनागि इंटरनेशनल का आईपीओ आया। इस साल में देवनागि इंटरनेशनल का आईपीओ आया। इस साल में देवनागि इंटरनेशनल का आईपीओ आया।

एनआईएएम-कोटक सिविलियन में करार

एनआईएएम-कोटक सिविलियन में करार। इस साल में एनआईएएम-कोटक सिविलियन में करार। इस साल में एनआईएएम-कोटक सिविलियन में करार।

एप से ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा देगी स्वास

एप से ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा देगी स्वास। इस साल में एप से ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा देगी स्वास। इस साल में एप से ओपीडी में कैशलेस इलाज की सुविधा देगी स्वास।

मुद्रा मंडार 1.58 अरब डॉलर घटा

मुद्रा मंडार 1.58 अरब डॉलर घटा

देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटता है। इस साल में देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटा। इस साल में देश का विदेशी मुद्रा भंडार घटा।

बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश

बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश

बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश। इस साल में बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश। इस साल में बीमा कारोबार संशोधन विधेयक पेश।

तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का आह्वान

तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का आह्वान

तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का आह्वान। इस साल में तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का आह्वान। इस साल में तेल और गैस क्षेत्र में निवेश का आह्वान।

Table with financial data for DIGICONTENT LIMITED, including quarterly and annual figures for revenue, profit, and equity.

एमएसएमई को हर संभव सहायता

एमएसएमई को हर संभव सहायता

एमएसएमई को हर संभव सहायता। इस साल में एमएसएमई को हर संभव सहायता। इस साल में एमएसएमई को हर संभव सहायता।

Advertisement for Archies Limited, featuring company details, contact information, and a notice to shareholders.

DIGISPIE Technologies Limited

DIGISPIE Technologies Limited

Regd. Office: 522, 6th Floor, DLF Tower A, Jaisala Dist. Centre, New Delhi - 110025

For more information on the company, please visit our website at www.digispie.com

Table with financial data for DIGISPIE Technologies Limited, including quarterly and annual figures for revenue, profit, and equity.

सोने में आई 294 रुपये की तेजी

सोने में आई 294 रुपये की तेजी

सोने में आई 294 रुपये की तेजी। इस साल में सोने में आई 294 रुपये की तेजी। इस साल में सोने में आई 294 रुपये की तेजी।

बैंकों में गिरावट से संसेक्स नीचे

बैंकों में गिरावट से संसेक्स नीचे

बैंकों में गिरावट से संसेक्स नीचे। इस साल में बैंकों में गिरावट से संसेक्स नीचे। इस साल में बैंकों में गिरावट से संसेक्स नीचे।

उद्योग कर्मियों की खुदरा मुद्रास्फीति 5.57% हुई

उद्योग कर्मियों की खुदरा मुद्रास्फीति 5.57% हुई

उद्योग कर्मियों की खुदरा मुद्रास्फीति 5.57% हुई। इस साल में उद्योग कर्मियों की खुदरा मुद्रास्फीति 5.57% हुई। इस साल में उद्योग कर्मियों की खुदरा मुद्रास्फीति 5.57% हुई।